

15.

100 P

100 P

2023-24



2008-09

FRBM Act

Gram - Rudman -

Hollings
Act

राजकोषीय घाटा

↓
4.5% (of GDP)

(By 2025-26)

2025-26 तक

↓
Centre

(त्रहणा - जी० डी० पी० अनुपात)

↓
60%

(2024-25 तक)

↓
General Govt.
सामान्य सरकार

(Centre + States)

(a) Task (कार्य) -

To suggest about the removal of vertical & horizontal imbalances in fiscal capacity among the centre & the states.

केन्द्र और राज्यों में मध्य राजकोषीय क्षमता में पाये जाने वाले असमानता और क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने

(b) Meaning of Vertical Imbalance
लम्बवर्त, असन्तुलन का अर्थ



The fiscal capacity of the centre is greater than that of states.

केन्द्र में राजकोषीय शक्ति
राज्यों में तुलना में अधिक है।



वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था




Difference among states
regarding fiscal capacity.

राज्यो में मध्य पारस्परिक
अन्तर्, राजकोषीय क्षमता में
सन्दर्भ में ।

Reason : Differences in
the level of eco.
dev.

ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ
Inx Rev.



(d) Diagram -

Centre

Const.



Vertical Imbalance

Eco. Dev.



Horizontal Imbalance

States


A

B

C

D

E



(e) 15th FC & Vertical Imbalance -
15वाँ वित्त आयोग और लक्ष्य

Chairman → Mr. N. K.

Period

- 2020-21
- 2021-26

The FC suggested th

(f) 15th FC & Horizontal
Imbalance

↓
The following formula has
been used. निम्न सूत्र का प्रयोग
किया गया -

ક્રમ	અંગ	અંગનું યોગદાન
૧. Population (૨૦૧૧)	અહીં	૧૫ %
૨. Demographic Performance जनसांख्यिक निष्पादन	અહીં	૧૨.૫ %

TFR
↓
Total Fertility Rate

૩. Income Distance આદામ - દૂરી	૫૫ %
-----------------------------------	------

૪. Area ક્ષેત્ર	૧૫ %	૧૫ %
૫. Fiscal & Tax Effort	૨.૫ %	
૬. Forest & Ecology	૧૦ %	

100 %

ਦਰਜ਼ੁ ਤਾ ਲਾ ਕਰ

(i) Intro -

Implemented in July
2017 as an important
indirect tax reform.

It shows the spirit of
cooperative federalism.

ਜੁਲਾਈ 2017 ਮੈਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ

ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਲੁਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਮੈਂ

ਜਾਂ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ।

(ii) Structure of GST — Dualist
संरचना (GST) — दोहरी

(a) CGST — Central GST



To be imposed by the Centre
केन्द्र द्वारा आरोपित होता

(b) SGST/UTGST — State GST



राज्यों / UTs द्वारा

(Input Tax credit) to be
given to traders, producers, service
providers etc.

मूल्य संवर्द्धन कर (VAT)
जो उत्पादकों, व्यापारियों, सेवा प्रदाताओं
आदि से ITC (Input Tax credit)
उपलब्ध कराने का गुण रखता है।

ITC में उत्पादकों, व्यापारियों आदि
में आगंतु (Inputs) पर दिये जाये
भर या तो वापस लौटा दिये जाते हैं
या उन्हें Offset (समाप्तोपजन) करने
की दृष्ट दे दी जाती है।

Consumers are not given

ITC.

उपभोक्ताओं में ITC नहीं दी जाती
है।

Price - ₹ 200,000 ← Digital Source

GST

(9)

(₹ 36,000)

Input

18%

Input Tax

Output

Total
Bill

₹ 2,36,000

Fees $\rightarrow$ ₹ 1,00,000

GST
⑤ - ₹ 18,000
18%

₹ 10,00,000

₹ 1,80,000
- 36,000

?

Central Taxes

↓
41%

45%

₹ 42,24,760 crore



Fiscal Monitor

IMF

84%